



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 26—जून 1, 2012 (ज्येष्ठ 5, 1934)

No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 26—JUNE 1, 2012 (JYAISTHA 5, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2012

सं. आरएस-3/1(1)/2012/42-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत अधिशासी अधिकारी श्रीमती दुरुपती जेटवानी को 23 अप्रैल, 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ सहायक निदेशक के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

दिनांक 1 मई 2012

सं. आरएस-3/1(3)/2012/43-कार्मिक--श्री मुकुल पाण्डे, जिन्हें पहले दिनांक 5 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. आरएस-3/1(3)/2012/12- कार्मिक द्वारा तदर्थ आधार पर संयुक्त सचिव के ग्रेड में

स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 1 मई, 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस-3/1(3)/2012/44-कार्मिक--श्री अनिल कुमार गांधी, जिन्हें पहले दिनांक 12 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. आरएस-3/1(1)/2012/15-कार्मिक द्वारा तदर्थ आधार पर निदेशक के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 1 मई, 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस-3/1(1)/2012/45-कार्मिक--श्रीमती शुभा चन्द्रशेखर, जिन्हें दिनांक 30 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. आरएस-3/1/1/

2009/105-कार्मिक के अंतर्गत राज्य सभा सचिवालय में विधायी/समिति/नयाचार/अधिकासी अधिकारी के ग्रेड में स्व-स्थाने आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को 1 मई 2012 के पूर्वाह्न से उक्त ग्रेड में नियमित रिक्ति के एवज में समायोजित कर दिया गया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

दिनांक 9 मई 2012

सं. आरएस-6/4/2012/49-कार्मिक--श्रीमती शिखा मुखर्जी, जिन्हें कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष (डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी) के व्यक्तिगत स्टाफ में सहपदावसान आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, की सेवाएं 9 मई, 2012 के अपराह्न से समाप्त की जाती हैं।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 18 अप्रैल 2012

सं. ए-12025/1/2009-प्रशासन-1--योजना आयोग के दिनांक 03 नवम्बर, 2010 के समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति, श्री आर. सी. मीना की योजना आयोग में पीबी-3 में रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 7,600/- के वेतनमान में उप-सलाहकार (सामाजिक विकास) के पद पर नियुक्ति की अवधि को दिनांक 25.10.2011 से अगले छह महीनों के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. बाकी सारी शर्तें वही होंगी जो कि योजना आयोग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03 नवम्बर, 2010 में निहित हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 2 मई 2012

सं. एफ-12025/11/2011-प्रशासन-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24 अप्रैल, 2012 का पत्रांक 7/1/2010-ई.ओ.(एस.2) के तहत राष्ट्रपति, श्री आई. ए. खान को योजना आयोग में रु. 10,000/- ग्रेड पे के साथ वेतन बैंड-3, रु. 37,400--67,000/- में पदोन्नति के आधार पर सलाहकार (ऊर्जा) के रूप में, दिनांक 27 अप्रैल 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक नियुक्ति प्रदान करते हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 2012

शुद्धि-पत्र

सं. ए-32014/1/2010-प्रशासन-3--योजना आयोग के दिनांक 26 अप्रैल, 2012 के समसंख्यक अधिसूचना, जो केन्द्रीय सचिवालय

आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के चयन सूची वर्ष 2010 के विरुद्ध प्रधान निजी सचिव ग्रेड में नियमित नियुक्ति से संबंधित है, का आंशिक संशोधन करते हुए क्रम संख्या 12 में दर्शाए गए अधिकारी, श्री सी. एल. कदम की दर्शाई गई श्रेणी 'सामान्य' के स्थान पर 'अनुसूचित जाति' पढ़ा जाए।

2. उपरोक्त अधिसूचना की अन्य विवरण यथावत रहेंगी।

गुलवीना बधान, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 मई 2012

सं. 181/3/2011--अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में प्रोन्नतियों पर विचार करने के लिए दिनांक 01.08.2006, 11.07.2007, 10.12.2008, 12.11.2009 को आयोजित पिछली विभागीय प्रोन्नति समिति बैठकों की अनुशंसाओं का पुनर्विलोकन करने के लिए दिनांक 13.12.2011, 27.12.2011 तथा 19.04.2012 को आयोजित विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठकों के पुनर्विलोकन की अनुशंसाओं के अनुसरण में तथा आयोग की पूर्व अधिसूचना सं. 181/3/2006 (ग्रेड-ख) दिनांक 10.08.2006, 14.11.2006, 06.10.2006 06.12.2006 सं. 181/3/2007 (ग्रेड-ख), दिनांक 23.08.2007, 14.01.2008 सं. 181/3/2008 (ग्रेड-ख), दिनांक 10.02.2009 तथा सं. 181/3/2009 (ग्रेड-ख), दिनांक 19.11.2009 के अधिक्रमण में, सक्षम प्राधिकारी, द्वारा निम्नलिखित सहायकों को वेतन बैंड-2 के रु. 9,300--34,800/- के तदनुसूची रु. 4,800/- ग्रेड वेतन में और अगले आदेशों तक अनुभाग अधिकारी के पद पर उनके नाम के सामने लिखी तारीख से नियमित आधार पर एतद्वारा नियुक्त किया जाता है :--

नाम	प्रोन्नति की तारीख	रिक्ति	टिप्पणी
1	2	3	4
सर्वश्री/श्रीमती गुरमीत कौर	01.08.2006	अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध	सेवानिवृत्त हो गई है
मलय मल्लिक	01.08.2006	अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध	----
अविनाश कुमार	01.08.2006	अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध	----
अरविन्द आनन्द (अ.जा.)	01.08.2006	अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध	----
राहुल शर्मा	01.01.2007	अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध	----
अजय कुमार	01.01.2007	अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध	----
मो. उमर	01.01.2007	अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध	----

1	2	3	4
सर्वश्री/श्रीमती कुमार राजीव	17.05.2010	अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध	-----
टी. सी. कोम (अ.ज.जा.)	01.01.2007	अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध	-----
पुष्पा निरोज लाकड़ा (अ.ज.जा.)	01.01.2007	अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध	-----
एन. टी. भुटिया (अ.ज.जा.)	01.01.2007	अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध	-----
बी. सी. पात्रा	01.01.2007	अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध	-----
ए. के. भटनागर	11.07.2007	अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध	-----
ए. के. पाठक	11.07.2007	अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध	-----
टी. के. दत्ता	11.07.2007	अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध	सेवानिवृत्त हो गए हैं
एस. के. दास	01.01.2008	अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध	-----
जयदेव लाहिरी	01.01.2008	अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध	-----
अनुप कुमार (अ.जा.)	01.01.2008	अ.जा. के रिक्ति के विरुद्ध	-----
राकेश कुमार (अ.जा.)	01.01.2008	अ.जा. के रिक्ति के विरुद्ध	-----
एच. जे. के. घई	02.02.2009	अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध	-----
गोकुल चन्द (अ.जा.)	01.01.2010	अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध	-----
लेख राज	01.01.2010	अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध	-----
आई. सी. गोयल	01.01.2010	अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध	-----
कृष्णा कुमारी (अ.जा.)	01.01.2010	अ.जा. के रिक्ति के विरुद्ध	-----
आर. पी. मेहंदिया (अ.जा.)	19.03.2010	अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध	-----
एम. एम. राघवन (अ.जा.)	19.03.2010	अ.जा. के रिक्ति के विरुद्ध	-----

स्टैण्डहोप युहलुंग, सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई 2012

सं. ए-12023/1/2003-प्रशा.-I (वि.वि.)--सक्षम प्राधिकारी ने श्रीमती रेणु सिन्हा, अधीक्षक (विधि), विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय की रूपए 15,600--39,100/- के वेतन बैंड-3 तथा रूपए 6,600/- के ग्रेड वेतन में विधि और न्याय मंत्रालय में सहायक विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा के ग्रेड-IV) के पद पर 30 मार्च, 2012 से तीन माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्ति को अनुमोदित किया है।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्रीमती रेणु सिन्हा को सहायक विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-IV) के ग्रेड में न तो नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

एम. आर. बीर, निदेशक (प्रशासन)

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई 2012

सं. ए-32013/01/2011-प्रशा.-IV (वि.का.)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.03.2012 के का.ज्ञा. सं. 3/3/2011-सीएस-II (ए) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, विधि कार्य विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के तौर पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वर्ष 2010 की चयन सूची में शामिल किए जाने पर, उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से उसी विभाग में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	कार्यग्रहण की तारीख
1	2	3	4
	(सर्वश्री)		
1.	सी. एस. मेहता	विधि कार्य विभाग	20.03.2012
2.	सुरेन्द्र टिपरा	विधि कार्य विभाग, विधि आयोग	20.03.2012
3.	टी. सी. स्कारिया	विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, मुम्बई	20.03.2012
4.	ए. एस. कोहली	विधि कार्य विभाग	20.03.2012
5.	पी. सी. जोशी	विधि कार्य विभाग	20.03.2012
6.	वी. के. ऐरी	विधायी विभाग	20.03.2012
7.	श्रीमती शिवकामी प्रकाश	विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, मुम्बई	20.03.2012

1	2	3	4
	(सर्वश्री)		
8.	सुश्री दयावती शर्मा	विधायी विभाग	09.04.2012
9.	एस. के. पाधी	विधि कार्य विभाग	20.03.2012
10.	भूपेन्द्र	विधायी विभाग	20.03.2012
11.	श्रीमती पुष्पा रानी राव	विधि कार्य विभाग	20.03.2012
12.	श्रीमती टेरेसा कुजूर	विधि कार्य विभाग	20.03.2012
13.	प्रवीणचन्द्र गुराह	विधायी विभाग	20.03.2012
14.	श्रीमती निर्मल डोभाल	विधि कार्य विभाग	20.03.2012

आशा सोय, अवर सचिव

न्याय विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 1 मई 2012

सं. के-13024/1/2012-यू.एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केरल उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश, न्यायविद श्री पेरिया वीडु खादिर मीरान बरकत अली को उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 2012

सं. ए-32014/5/2012-प्रशा.-I (क)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सी.एस.एस.एस.) के निम्नलिखित निजी सचिवों, जो वर्तमान में, गृह मंत्रालय में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं, को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.03.2012 के का. ज्ञा. संख्या 3/3/2011-सी.एस.-II (क) के अनुसार, वर्ष 2010 की प्रधान निजी सचिवों की चयन सूची में उनके नाम शामिल होने के फलस्वरूप, उन्हें दिनांक 20 मार्च, 2012 के पूर्वान्न से गृह मंत्रालय संवर्ग में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	डीओपीटी के उपर्युक्त का.ज्ञा. के अनुसार क्रम सं.	उप संवर्ग जहाँ अधिकारी तैनात हैं
1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती		
1.	कुसुम शर्मा	9	गृह मंत्रालय (मु.)
2.	रतन सिंह नेगी	12	प्रधानमंत्री कार्यालय
3.	के. भारद्वाज	19	गृह मंत्रालय (मु.)

1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती		
4.	एम. एम. के. मल्होत्रा	26	गृह मंत्रालय (मु.)
5.	रविन्दर कुमार	33	एन एस सी एस
6.	जोना बरेटो	62	पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग
7.	पवन रेखा शर्मा	71	एन एस सी एस
8.	कविता हान्डा	117	पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग
9.	सतनाम सिंह	130	भारत का महापंजीयक
10.	अनिल धवन	215	गृह मंत्रालय (मु.)
11.	के. एन पंत	217	रा. अ. रि. ब्यूरो
12.	एम. वी. एन. एस. श्यामलाल	222	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
13.	बी. वेंकटसुब्रमणियन	261	गृह मंत्रालय (मु.)
14.	मंजीत सिंह	263	गृह मंत्रालय (मु.)
15.	उमा रवि रामास्वामी	273	रा. अ. रि. ब्यूरो
16.	वी. के. मनुजा	286	गृह मंत्रालय (मु.)
17.	वी. एस. माथुर	324	गृह मंत्रालय (मु.)
18.	उषा	331	भारत का महापंजीयक
19.	एन. एस. कश्यप	346	प्रधानमंत्री कार्यालय
20.	हरीश चन्द्र	357	भारत का महापंजीयक
21.	राजेन्द्र प्रसाद	374	प्रधानमंत्री कार्यालय
22.	के. श्रीनिवासन	377	गृह मंत्रालय (मु.)
23.	पी. एम. मुरलीधरन	401	गृह मंत्रालय (मु.)
24.	राजन गेरा	404	गृह मंत्रालय (मु.)
25.	एम. रघु	410	गृह मंत्रालय (मु.)
26.	अरुण कुमार शर्मा	429	गृह मंत्रालय (मु.)
27.	पी. एस. जी. नायर	462	गृह मंत्रालय (मु.)
28.	तृप्तजीत महाजन	477	एन एस सी एस
29.	कमलेश पाल	571	कम्प्यूटर केन्द्र
30.	एम. एल. वर्मा	578	रा. अ. रि. ब्यूरो
31.	तारा चन्द	593	गृह मंत्रालय (मु.)

1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती		
32.	इन्द्रेण कुमार	594	भारत का महापंजीयक
33.	एस. गुरु मूर्ति	619	गृह मंत्रालय (मु.)
34.	ए. के. गौड़	620	गृह मंत्रालय (मु.)
35.	एम. जगन्नाथ राव	624	प्रधानमंत्री कार्यालय
36.	विभा मेहता	636	पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग
37.	के. पी. रामवर्मा	641	एन एस सी एस
38.	एन. गोपालकृष्णन	644	प्रधानमंत्री कार्यालय

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 2012

सं. आई-14011/8/2011-आई.पी.एस.-1 (I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 13.04.2012 को चयन समिति की दिनांक 27.12.2011 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2010 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के नागालैण्ड संवर्ग में वर्ष 2012 में कुल 4 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु नागालैण्ड पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :--

चयन सूची-2010

क्रम नाम सं.	जन्म तिथि
(सर्वश्री)	
1. वेटसोप क्रोम	28.02.1959
2. खोचेराओ एलियास लोथा	15..07.1956
3. एस. टोकियुमोंग यिमचुंगर	12.12.1962
4. इमलिसुनेप	23.03.1964

बलदेव राज, अवर सचिव

सं. आई-14011/08/2011-आई.पी.एस.-1 (II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागालैण्ड पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय

पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत नागालैण्ड संवर्ग प्रदान करते हैं :--

चयन सूची-2010

क्रम नाम सं.	जन्म तिथि
(सर्वश्री)	
1. वेटसोप क्रोम	28.02.1959
2. खोचेराओ एलियास लोथा	15..07.1956
3. एस. टोकियुमोंग यिमचुंगर	12.12.1962
4. इमलिसुनेप	23.03.1964

3. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

बलदेव राज, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 मई 2012

सं. I-18011/07/2012-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम-3-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के बिहार संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं :--

क्रम परिवीक्षाधीन भा.पु.से. सं. नाम	स्थायी किए जाने की तिथि
1. श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा भा.पु.से., (बिहार : 2008)	01.09.2010
2. श्री मनोज कुमार, भा.पु.से. (बिहार : 2008)	01.09.2010
3. श्री विकास बर्मन, भा.पु.से. (बिहार : 2008)	01.09.2010
4. श्रीमती निताशा गुड़िया, भा.पु.से. (बिहार : 2008)	01.09.2010

राजेन्द्र कुमार
अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 2012

सं. 13017/42/2011-अ.भा.से. (I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मणिपुर व त्रिपुरा सरकारों तथा गृह मंत्रालय की सहमति से केन्द्र

सरकार, सुश्री सौम्या गुप्ता, भा.प्र.से. (मणिपुर-त्रिपुरा : 04) की मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग (दिल्ली खंड) में अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति हेतु उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती हैं।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

(कार्यालय उप प्रोतोकॉल प्रमुख (एफ))

नई दिल्ली, दिनांक 2 मई 2012

सं. डी-III/460/सीएफ-30/2011--राष्ट्रपति, बेंगलुरु में एल. सल्वडोर गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्री उद्धव अभय कुमार कनोरिया की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करती हैं।

श्री उद्धव अभय कुमार कनोरिया का कौंसली क्षेत्राधिकार बेंगलुरु है।

दीपक मिगलानी, उप प्रोतोकॉल प्रमुख (एफ)

सं. डी-III/460/सीएफ-78/2011--राष्ट्रपति, कोलकाता में रूसी परिसंघ के प्रधान कौंसल के रूप में मिस ईरिना किमोना बास्करोवा की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करती हैं।

मिस ईरिना किमोना बास्करोवा के कौंसली क्षेत्राधिकार में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा राज्य होगा, जिसका केन्द्र कोलकाता होगा।

दीपक मिगलानी, उप प्रोतोकॉल प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल 2012

सं. 35 : (फा. सं. ए.-19014/6/2009-प्रशा. 1)--इस विभाग की अधिसूचना सं. 114/2009 दिनांक 30 दिसम्बर, 2009 तथा 22/2011 दिनांक 23 मार्च, 2011 के क्रम में, भारत के राष्ट्रपति राजस्व विभाग में कनिष्ठ विश्लेषक (तकनीकी समन्वय) के रूप में कार्यरत प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली के अधिकारी श्री राजू पी. अमलानी की प्रतिनियुक्ति अवधि को एक वर्ष की अवधि अर्थात् 04.04.2012 से 03.04.2013 अथवा अगले आदेशों तक, इसमें से जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 13 अप्रैल 2012

सं. 36 : (फा. सं. ए.-19013/12/2012-प्रशा. 1)--राष्ट्रपति, श्री स्यामल दत्त, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 02607) को दिनांक 19.03.2012 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इस विभाग के केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 27 अप्रैल 2012

सं. 38 : (फा. सं. ए.-19011/6/2012-प्रशा. 1)--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (प. बं. : 83) के एक अधिकारी श्री मदन लाल मीना, को दिनांक 27 अप्रैल, 2012 (पूर्वाह्न) से 15.06.2015 तक अथवा अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में वेतन बैंड रु. 37,400--67,000/- (पी.बी.-4) के साथ 10,000/- रुपये के ग्रेड वेतन में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 30 अप्रैल 2012

सं. 39 : (फा. सं. ए.-19011/7/2012-प्रशा. 1)--राष्ट्रपति, श्री एस. दत्त मजूमदार, अध्यक्ष, के.उ.शु. एवं सी.शु. बोर्ड (सेवानिवृत्त) को एचएजी + 75,500--80,000/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 27.04.2012 (पूर्वाह्न) से दो साल की अवधि के लिए अथवा 63 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, दिल्ली में अप्रत्यक्ष कर ऑम्बड्समैन नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 1 मई 2012

सं. 40 : (फा. सं. ए.-38011/1/2012-प्रशा. 1)--राजस्व विभाग में के.प्र.कर बोर्ड में सदस्य के रूप में तैनात भारतीय राजस्व सेवा (74047) की अधिकारी श्रीमती मंजरी कक्कड़ अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.04.2012 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 2 मई 2012

सं. 41 : (फा. सं. ए.-38014/2/2012-प्रशा. 1)--राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री पी. के. शर्मा, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.04.2012 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 42 : (फा. सं. ए.-38011/2/2012-प्रशा. 1)--राजस्व विभाग में के.उ.शु. एवं सी.शु. बोर्ड में सदस्य के रूप में तैनात भारतीय राजस्व सेवा (सी.शु. एवं के.उ.शु. : 75) के अधिकारी श्री एम. सी. ठाकुर अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.04.2012 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 43 : (फा. सं. ए.-19012/8/2007-प्रशा. 1)--इस विभाग की दिनांक 4 मई, 2007 की अधिसूचना सं. 52 के अनुक्रम में, भारत के राष्ट्रपति राजस्व विभाग में निदेशक श्री संजीव श्रीवास्तव, भा.रा.से. (सी.शु. एवं के.उ.शु. : 91) की प्रतिनियुक्ति अवधि को दिनांक 31.07.2012 तक बढ़ाते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 4 मई 2012

सं. 44 : (फा. सं. ए.-19011/8/2012-प्रशा. 1)--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (तमिलनाडु : 81) के अधिकारी श्री शशि शेखर को 67,000--79,000/- रुपये के एचएजी वेतनमान में दिनांक 03.05.2012 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में भारत सरकार के अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 2012

सं. 4/5/2009-एडी.ईडी (पार्ट)--भारत के राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से 4 (चार) वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर 10,000--15,200/- रुपये (पूर्व संशोधित), वेतन बैंड-3, 15,600--39,100/- रुपये ग्रेड वेतन 6,600/- रुपये (संशोधित) के वेतनमान में राजस्व विभाग के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय में उप निदेशक (पूर्व सहायक निदेशक, ग्रेड-I), प्रवर्तन के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री नीलकांत शिल्के	08.08.2011 (पूर्वाह्न)
2.	श्री गुरनाम सिंह	02.01.2012 (पूर्वाह्न)
3.	श्री के. सी. सेल्वानी	03.01.2012 (पूर्वाह्न)

आर. एन. सिंह, अवर सचिव

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 2012

सं. 7/2012 (फा. सं. ए.-32012/01/2005-प्रशा. VI)--श्री पी. पी. असपतवार (00938), सहायक आयकर आयुक्त, बैंगलूरु को एतद्द्वारा 1.1.2006 से पी.बी. 3 में 15,600--39,100/- + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन के वेतनमान में आयकर उपायुक्त (वरिष्ठ समयमान) के रूप में कामकाज देखने हेतु पदोन्नत किया जाता है।

आनन्द उपाध्याय, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 2012

सं. ए-12011/18/2005-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, व्यय विभाग (सीएस) के दिनांक 04.04.2012 के का.ज्ञा. सं. ए-32014/1/2006-सीएस (खंड-1) के अनुसरण में, श्री जयदीप कुमार चौधरी, अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) को रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,800/- (ग्रेड वेतन) पी.बी.-2 में संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2006, 2007 और 2008 के परिणाम के आधार पर दिनांक 30.03.2012 से वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में नियमित अनुभाग अधिकारी (चयन सूची वर्ष 2006) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के परिणाम के अधीन होगी:--

- केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में श्री सौरांशु सिन्हा बनाम भारत संघ द्वारा दायर ओ.ए.सं. 1083/2007, एम. ए.सं.-1171/2007 तथा 2011।
- केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में श्री ए. के. नंदी एवं अन्य बनाम भारत संघ द्वारा दायर ओ.ए.सं. 2136/2010।
- केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में श्री विकास त्रिपाठी व अन्य बनाम भारत संघ द्वारा दायर ओ.ए.सं. 2469/2010।
- केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में श्री ए. प्रकाश व अन्य बनाम भारत संघ द्वारा दायर ओ.ए.सं. 1253/2009।
- केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में श्री प्रोदीप कुमार मंडल बनाम भारत संघ द्वारा दायर ओ.ए.सं. 2584/2011 और एम.ए.सं.-1987/2011।

अशोक कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 2012

सं. ए-12011/1/2012-प्रशा.-Iए--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के एनएफएसजी/जेएजी स्तर के अधिकारी श्री अनुपम मिश्रा (आईईएस : 95) को 17.04.2012 (अपराह्न) से वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल 2012

सं. 9/1/2011-डीआरटी--केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति आधार पर पे-बैंड-3 में 15,600--39,100 + 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में उनके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, विभिन्न ऋण वसूली

अधिकरणों में सहायक पंजीयक/वसूली अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है :--

क्रं.	चयनित अधिकारी	पद	तैनाती का	प्रतिनियुक्ति की अवधि
सं.	का नाम		स्थान	से तक
			(डीआरटी)	(ता./म./वर्ष) (ता./म./वर्ष)
सर्वश्री/श्रीमती				
1.	कोपुरी बी. कुमार	सहायक पंजीयक	विशाखापट्टनम	22.02.2012 21.02.2015 (पूर्वाह)
2.	उत्पल समाजपति	सहायक पंजीयक	कोलकाता-II	23.02.2012 22.02.2015 (पूर्वाह)
3.	गोपाल कृष्णा पांडा	सहायक पंजीयक	मुम्बई-II	01.03.2012 28.02.2015 (पूर्वाह)
4.	एस. श्रीनिवासन	वसूली अधिकारी	मदुरै	12.03.2012 11.03.2015 (पूर्वाह)
5.	एस. आर. परांजपे	वसूली अधिकारी	नागपुर	22.02.2012 21.02.2015 (पूर्वाह)
6.	नंद कुमार	वसूली अधिकारी	जयपुर	21.02.2012 20.02.2015 (पूर्वाह)
7.	बी. एन. झा	वसूली अधिकारी	मुम्बई-I	15.02.2012 14.02.2015 (पूर्वाह)
8.	डी. वीरनारायण	वसूली अधिकारी	विशाखापट्टनम	29.02.2012 28.02.2015 (पूर्वाह)

राजीव शर्मा, अवर सचिव

सं. 9/1/2011-डीआरटी (पार्ट)--केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति आधार पर पे-बैण्ड-3 में 15,600--39,100 + 7,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में उनके नाम के सामने दर्शायी गई अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, विभिन्न ऋण वसूली अधिकरणों में पंजीयक के पद पर नियुक्त करती है :--

क्रं.	चयनित अधिकारी	पद	तैनाती का	प्रतिनियुक्ति की अवधि
सं.	का नाम		स्थान	से तक
			(डीआरटी)	(ता./म./वर्ष) (ता./म./वर्ष)
श्री/श्रीमती				
1.	के. श्रीमन्नारायन	पंजीयक	विशाखापट्टनम	03.02.2012 02.02.2015 (पूर्वाह)
2.	प्रेमराज कौर	पंजीयक	दिल्ली-III	23.02.2012 22.02.2015 (पूर्वाह)

राजीव शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2012

सं. ए-19011/323/2012-स्था.--राष्ट्रपति, श्री अतीश सिंह, इंडियन रेलवे ट्रेफिक सेवा (1994) को 10 मई, 2012 के पूर्वाह से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

मृन्युजय सिंह, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 2012

सं. ए-12026/6/2010-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 20 मार्च, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2011-सीएस-II (ए) के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित प्रधान निजी सचिवों (तदर्थ) को 20 मार्च, 2012 से वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए) + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव नियुक्त करते हैं:-

क्रं. सं.	नाम
1.	श्री डी. सी. पाण्डेय
2.	श्रीमती राजी राजगोपाल
3.	श्री एस. के. कठपालिया
4.	श्री एस. धर्मराजन
5.	श्रीमती कृतिका छाबड़ा
6.	श्री केदार नाथ सोनी
7.	श्रीमती ओमलता रावत

बिप्लब कुमार रॉय, अवर सचिव

विनिवेश विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 मई 2012

सं. 9/2/2012-प्रशा.--वर्ष 2010 की चयन सूची (पार्ट) में नाम सम्मिलित होने और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.03.2012 के का.ज्ञा. सं. 3/3/2011-सीएस-II (ए) के साथ पठित व्यय विभाग (संवर्ग प्रशासन अनुभाग) के दिनांक 13 अप्रैल, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-12026/9/2010-सीएस-II के निबंधनों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में पदोन्नति के परिणामस्वरूप भारत के राष्ट्रपति श्री वीरेन्द्र (क्रम सं. 97, चयन सूची वर्ष 1993) को विनिवेश विभाग में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर 10 अप्रैल, 2012 के पूर्वाह से, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के संशोधित वेतनमान 15,600--39,100 + ग्रेड पे 6,600/- रुपए (पीबी-3) के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

दे. चट्टोपाध्याय, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 मई 2012

सं. ए-32014/1/2012-संवर्ग--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की निजी सचिव श्रीमती पुष्पा चाना को चयन सूची वर्ष, 2010 के लिए वरीयता कोट में 23.04.2010 (पूर्वाह्न) से पूर्ति प्रभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव ग्रेड (प्रधान निजी सचिव के रूप में पदनामित) के पद पर पी.बी.-3 में (रु. 15,600--39,100 + ग्रेड पे रु. 6,600/-) में नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की प्रधान निजी सचिव, श्रीमती पुष्पा चाना को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में तैनात किया जाता है।

संजय शंकर, अवर सचिव

दिनांक 3 मई 2012

सं. ए-32014/1/2012-संवर्ग--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की निजी सचिव श्री गिरीश चन्द्र उपाध्याय को चयन सूची वर्ष, 2010 के लिए वरीयता कोट में 01.05.2012 (पूर्वाह्न) से पूर्ति प्रभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव ग्रेड (प्रधान निजी सचिव के रूप में पदनामित) के पद पर पी.बी.-3 में (रु. 15,600--39,100 + ग्रेड पे रु. 6,600/-) में नियुक्त करते हैं।

संजय शंकर, अवर सचिव

दिनांक 10 मई 2012

सं. ए-32014/1/2012-संवर्ग--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की निजी सचिव श्री ओ. पी. थपलियाल को चयन सूची वर्ष, 2010 के लिए वरीयता कोट में 27.04.2012 (पूर्वाह्न) से पूर्ति प्रभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव ग्रेड (प्रधान निजी सचिव के रूप में पदनामित) के पद पर पी.बी.-3 में (रु. 15,600--39,100 + ग्रेड पे रु. 6,600/-) में नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की प्रधान निजी सचिव, श्री ओ. पी. थपलियाल को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में तैनात किया जाता है।

संजय शंकर, अवर सचिव

सं. ए-32014/1/2012-संवर्ग--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की निजी सचिव श्री योगेश्वर सरना को चयन

सूची वर्ष, 2010 के लिए वरीयता कोट में 27.04.2012 (पूर्वाह्न) से पूर्ति प्रभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव ग्रेड (प्रधान निजी सचिव के रूप में पदनामित) के पद पर पी.बी.-3 में (रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 6,600/-) में नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की प्रधान निजी सचिव, श्री योगेश्वर सरना को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में तैनात किया जाता है।

संजय शंकर, अवर सचिव

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल 2012

सं. ए-22012/1/2012-स्था.-I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.04.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 20/31/2010 सीएस-II (ए) (पार्ट) द्वारा दिए गए उनके आदेशों के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित आशुलिपिकों ग्रेड 'क एवं ख' (विलयित) (निजी सचिव) का पे बैंड-3 रुपए 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रुपए 6,600/- के वेतनमान में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संवर्ग में प्रधान निजी सचिव के रूप में तदर्थ नियुक्ति का कार्यकाल 30.09.2012 तक अथवा पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने की अनुमति देते हैं :--

क्रं.	नाम	तैनाती	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सूची में क्रम संख्या
सं.			
1.	श्री डी. के. शर्मा	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	10
2.	सुश्री मचिराजू शारदा	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	38

2. प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में अधिकारियों की पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और इससे अधिकारियों को इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 4 मई 2012

सं. ए-12023/2/2012-स्था.-I--राष्ट्रपति, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के कार्यालय में राजभाषा सेवा के नियमित सहायक निदेशक डॉ. सतीश चन्द्र को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में 01.05.2012 से 08.02.2013 की अवधि तक के लिए या पद के लिए नियमित उप निदेशक (राजभाषा) उपलब्ध होने अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, वेतन संरचना पीबी-3 (15,600--39,100/-) ग्रेड पे 6,600/- रुपए में तदर्थ आधार पर उप निदेशक (राजभाषा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई है और इससे अधिकारी को उक्त पद पर अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा ग्रेड में वरिष्ठता अथवा पदोन्नति का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 अप्रैल 2012

सं. ए-23011/08/2012-एच.आर.-II--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के का.ज्ञा. सं. 3/3/2011-सी.एस.-II (क), दिनांक 20.03.2012 के अनुसरण में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में (i) सुश्री सुशील कुमारी, (ii) श्री शशि बल्लभ नैथानी और (iii) श्री अनूप सिंह रावत को पे-बैंड (पीबी-3) 15,600--39,100/- रुपए में 6,600/- रुपए के ग्रेड पे में दिनांक 20 मार्च 2012 से नियमित आधार पर चयन सूची वर्ष 2010 के लिए सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में नियुक्त करती है।

सौमेन्द्र चंदा, अवर सचिव

दिनांक 26 अप्रैल 2012

शुद्धि-पत्र

सं. ए-32011/09/2011-मा.सं.-II--दिनांक 18.04.2012 की समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन में श्री श्याम सुंदर वर्मा की अवर सचिव के रूप में तदर्थ नियुक्ति की तारीख को 15.12.2012 के पूर्वाह्न से 30.06.2012 तक की बजाय 15.12.2011 के पूर्वाह्न से 30.06.2012 तक पढ़ा जाए।

2. अन्य बातें समान रहेंगी।

सौमेन्द्र चंदा, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 11 अप्रैल 2012

सं. ए-19011/02/2012-प्रशा.--राष्ट्रपति ने श्री जगदीश प्रसाद मीणा, भा.प्र.से. (ए एम : 83) को पद का कार्यभार संभालने की तारीख से 02.08.2016 तक की अवधि अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो के लिए पश्चिम शिफ्ट आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया है।

श्री जगदीश प्रसाद मीणा, भा.प्र.से. (एएम : 83) ने 02.04.2012 के (अपराह्न) से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

संजय बाजपेई, अवर सचिव

दिनांक 26 अप्रैल 2012

सं. ए-19011/06/2006-प्रशा.--बिहार सरकार की दिनांक 05.03.2012 की अधिसूचना संख्या 1/पी-1020/2011-जीएडी-3499

जिसमें उन्होंने अखिल भारतीय सेवा (डीसीआरबी) नियम, 1958 के नियम 16(2) के अंतर्गत दिनांक 01.05.2012 से अखिल भारतीय सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए श्री अजित कुमार भा.प्र.से. (बिहार : 80) संयुक्त सचिव की दिनांक 02.02.2012 की सूचना को स्वीकार करने के अनुमोदन की सूचना दी है, के अनुसरण में, राष्ट्रपति ने श्री अजित कुमार भा.प्र.से. (बिहार : 80) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को 01.05.2012 (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति दे दी है ताकि वह निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता तथा प्रबंधन संस्थान, कुण्डली, हरियाणा के पद का अपना नया कार्यभार संभाल सकें।

संजय बाजपेई, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 1 मई 2012

सं. ए-12025/70/2009-सीएचएस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. सौम्यादीप्त घोष को दिनांक 12 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक 15,600--39,100+5,400/- रुपये (पीबी-3) के वेतनमान में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करती है। डॉ. सौम्यादीप्त घोष को श्रम मंत्रालय, के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परिवीक्षा की अवधि पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल 2012

सं. ए-19012/02/2011-स्थापना-I--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (केरल : 1986) के श्री विश्वास मेहता को 24.04.2012 (पूर्वाह्न) से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में पार्श्विक (लेटरल) स्थानांतरण के आधार पर, संयुक्त सचिव के रूप में उनकी पांच वर्ष की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि के लिए अर्थात् 09.07.2014 तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करती है।

अनिल कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 2012

सं. ए-12020/01/2011-प्रशा.-I--विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, श्रीमती नीरज अनुज, सहायक (एडी) को प्रोन्नति आधार पर 4,600/- रु. के ग्रेड वेतन के साथ के वेतन बैंड-2 (9,300--34,800/- रु.) में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सहायक वास्तुविद् (श्रेणी "ख" राजपत्रित) के पद पर उनके कार्यभार संभालने की तारीख अर्थात् दिनांक 20.03.2012 से नियुक्त करते हैं।

प्रेम प्रकाश, उप निदेशक (सा.)

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 2012

सं. 32013/9/2011-विपणन-I--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित (गुप-III) विपणन अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शायी गई तिथि से वरिष्ठ विपणन अधिकारी (गुप-III) के पद पर वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 5,400/- में, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय में, नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	कार्य ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री एन. आर. बी. राजू	30.03.2012
2.	श्री डी. के. गुमास्ता	30.03.2012
3.	श्री शिवनन्दन	30.03.2012

सुकुमार, उप सचिव

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई 2012

सं. 19014/57/2006-स्थापना--राष्ट्रपति जी, श्री राकेश शर्मा, अवर सचिव, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एल. 4921) जोकि वर्तमान में पी.एफ.आर.डी.ए. में उप महाप्रबंधक के तौर पर कार्य कर रहे हैं, की केन्द्रीय सचिवालय सेवा से सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 48 के तहत 15.02.2012 से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार करते हैं।

विजय सिंह, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 2012

सं. ए-32013/1/2011-ई-III--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 3/3/2011-सीएस-II(ए) दिनांक 20.03.2012 के अनुसरण में राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग (कैंडर) के निजी सचिव के रूप में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों को वरिष्ठता कोटा के लिए वर्ष 2010 की प्रधान निजी सचिव की वरीयता सूची में उनका नाम सम्मिलित किए जाने पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के संवर्ग में वेतन बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/- + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन) में नियमित आधार पर 20.03.2012 (पूर्वाह्न) से प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं :--

1. श्री संपूर्ण सिंह
2. श्री आर. पी. अरोड़ा

3. कृ. नीला के. पी.
4. श्री वाई. सुब्बा राव
5. श्रीमती पूनम रानी
6. श्री पी. विजयन
7. श्री जी. अनिल कुमार
8. श्री सी. दामोदरन
9. श्रीमती मंजु शर्मा
10. श्री बजरंग लाल
11. श्री देवी सिंह पुलस्त

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अप्रैल 2012

सं. पी.एफ./एम./55-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2011-सीएस-II (ए) दिनांक 20 मार्च, 2012 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, सीएसएसएस की श्रीमती मालती शर्मा को सीएसएसएस कैंडर में चयन सूची वर्ष 2010, क्रम सं. 408 में उनके नाम को शामिल करने के पश्चात्, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय में दिनांक 20.03.2012 से नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में नियुक्त करते हैं।

थंगमिलेलियन, उप सचिव (प्रशा.)

खेल विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 2012

सं. 1-27/2012-आईडी--सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार तथा मंत्रालय की दिनांक 02 जून, 2010 की अधिसूचना में आंशिक आशोधन करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार श्री सी. चिन्मया, निदेशक (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के निम्नलिखित स्टेडियमों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती हैं :--

1. जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. इंदिरा गांधी स्टेडियम, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
3. मेजर ध्यान चन्द राष्ट्रीय स्टेडियम, इंडिया गेट के पास, नई दिल्ली।
4. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर, वेलिंगटन क्रीसेंट रोड, नई दिल्ली।
5. डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज, तुगलकाबाद, नई दिल्ली।

दिल्ली में भारतीय खेल प्राधिकरण की अधिकारिता के अंतर्गत अन्य भवनों, परिसरों, आवासीय स्थानों और सुविधाओं के लिए सचिव, (भाखेप्रा)

संपदा अधिकारी के रूप में कार्य करते रहेंगे।

उपर्युक्त अधिकारी अपने वर्तमान कार्य के अतिरिक्त संपदा अधिकारी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

राकेश कुमार, अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 अप्रैल 2012

सं. 41/7/2010-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध/बेतार अनुश्रवण संगठन में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ बेतार अधिकारियों की इंजीनियर के रूप में तदर्थ आधार पर पदोन्नति हो जाने पर, उन्हें उनके समक्ष उल्लिखित एक वर्ष की अवधि के लिए 5,400/- रु वेतन ग्रेड सहित 15,600-39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में इंजीनियर नियुक्त करते हैं :--

क्रम नाम	तदर्थ पदोन्नति की अवधि सं.
सर्वश्री	
1. मकरंद पाठक	07.03.2012 (अपराह्न) 06.03.2013
2. बी. चट्टोपाध्याय	09.03.2012 08.03.2013
3. एस. भास्करन	09.03.2012 08.03.2013
4. उमराव मीणा	07.03.2012 06.03.2013

निर्मला देव, अवर सचिव

दिनांक 24 अप्रैल 2012

सं. 32014/2/2010-प्रशासन-II--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' को दूरसंचार विभाग के उक्त संवर्ग में 4,800/- रु. ग्रेड वेतन के साथ 9,300--38,800/- रु. के वेतन बैंड-2 के वेतनमान में तदर्थ आधार पर नीचे उल्लिखित आगे की अवधि के लिए अथवा नियमित निजी सचिव {आशुलिपिक ग्रेड 'क और ख' (विलयित)} उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, निजी सचिव {आशुलिपिक ग्रेड 'क और ख' (विलयित)} के रूप में कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

क्रम	आशुलिपिक ग्रेड 'ग' का नाम	अवधि
सं.		
1	2	3
1.	श्रीमती राजश्री रमेश	01.04.2012 से 30.09.2012
2.	श्रीमती पुष्पलता	01.04.2012 से 31.05.2012
3.	श्री एस. शंकरन	01.04.2012 से 30.09.2012
4.	श्री आर. के. चुघ	01.04.2012 से 30.09.2012

1	2	3
5. श्रीमती अनिता शर्मा	01.04.2012 से 30.09.2012	
6. श्री जेकब वी. जॉर्ज	01.04.2012 से 30.09.2012	
7. श्री दिनेश कुमार	01.04.2012 से 30.09.2012	
8. श्री नरेंद्र कुमार शर्मा	01.04.2012 से 30.09.2012	
9. श्री जगदीश चंद	01.04.2012 से 30.09.2012	
10. श्री पी. एस. रामकृष्ण	01.04.2012 से 30.09.2012	
11. श्रीमती बिंदु मोल ओ.	01.04.2012 से 30.09.2012	
12. श्रीमती वरलक्ष्मी नागराजु	01.04.2012 से 30.09.2012	
13. श्रीमती सुनीता	01.04.2012 से 30.09.2012	
14. सुश्री मीना वैद	01.04.2012 से 30.09.2012	
15. सुश्री सविता बक्शी	01.04.2012 से 30.09.2012	
16. श्रीमती विजय कुमारी शर्मा	01.04.2012 से 30.09.2012	

उपर्युक्त नियुक्तियां, पूर्णतः तदर्थ आधार पर हैं और यह उक्त अधिकारियों को निजी सचिव {आशुलिपिक ग्रेड 'क और ख' (विलयित)} में वरिष्ठता अथवा उक्त ग्रेड में शामिल होने का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

निर्मला देव, अवर सचिव

दिनांक 26 अप्रैल 2012

सं. 41-01/2010-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध/बेतार अनुश्रवण संगठन, दूरसंचार विभाग में कार्यरत श्री नरेन्द्र भारती, सहायक बेतार सलाहकार/प्रभारी अभियन्ता (बेतार अनुश्रवण संगठन) को तदर्थ आधार पर दिनांक 19.03.2012 से 18.09.2012 तक छः महीने की अवधि के लिए, अथवा पद पर नियमित पदधारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड (वेतन बैंड-3) में 7,600/- रु. ग्रेड वेतन सहित उप बेतार सलाहकार/उपनिदेशक (बेतार अनुश्रवण संगठन) के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान करते हैं।

2. यह नोट किया जाए कि इस ग्रेड में उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ नियुक्ति से उन्हें वरिष्ठता और/अथवा नियमित पदोन्नति के मामले में कोई दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उपर्युक्त उल्लिखित तदर्थ नियुक्ति की अवधि पूरी होने पर, जब तक कि अन्यथा कोई आदेश न हो, वे अपने मूल ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिए जाएंगे।

निर्मला देव, अवर सचिव

डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 जनवरी 2012

सं. 3-1/2011-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2011-सीएस-II(ए), दिनांक 08 नवम्बर, 2011 के

अनुसरण में राष्ट्रपति, डाक विभाग में सीएसएसएस के निजी सचिव के रूप में सीएसएसएस के निम्नलिखित निजी सहायकों की तदर्थ नियुक्ति की अवधि को 31.03.2012 तक अथवा सीएसएसएस के नियमित निजी सचिव उपलब्ध होने, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए बढ़ाते हैं :--

क्रम नाम
सं.

सर्वश्री/श्रीमती

1. अवतार सिंह
2. बी. मुरलीधरन पिल्लई
3. विकास खन्ना
4. ए. के. गोयल
5. अनुराधा जीवराज
6. जी. स्वामीनाथन
7. जयश्री लक्ष्मीनारायण
8. ऊषा बाली
9. जयन्त शाह
10. कंचन बाला मदान
11. कार्थियानी के. ए.
12. सुनील कुमार
13. राजेन्द्र प्रसाद
14. बी. भानुमथी
15. मंजू वर्मा
16. पी. के. मदन
17. मुक्ता अग्रवाल
18. सीमा गुप्ता
19. राज कालरा

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है तथा इससे अधिकारी को इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए सीएसएसएस के निजी सचिव की चयन सूची में समावेशन के लिए अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तदर्थ नियुक्ति कारण बताए बिना किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

अमित पंकज, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

दिनांक 10 अप्रैल 2012

सं. 3-1/2011-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/8/2006-सीएस-II, दिनांक 29 दिसम्बर, 2011 के अनुसरण में राष्ट्रपति, डाक विभाग में सीएसएसएस के निजी सचिव के रूप में

सीएसएसएस के निम्नलिखित निजी सहायकों की तदर्थ नियुक्ति की अवधि को 31.03.2012 तक अथवा सीएसएसएस के नियमित निजी सचिव उपलब्ध होने, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए बढ़ाते हैं :--

1. श्रीमती गीता देवी
2. श्री सी. पी. अरोड़ा
3. श्रीमती चंद्रकांता

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है तथा इससे अधिकारी को इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए सीएसएसएस के निजी सचिव की चयन सूची में समावेशन के लिए अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तदर्थ नियुक्ति कारण बताए बिना किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

अमित पंकज, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 अप्रैल 2012

सं. ए-35018/03/2007-प्रशा.-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 9/20/2012-ईओ (एसएम-I) दिनांक 17.04.2012 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, पर्यटन मंत्रालय में अपर सचिव के पद का अस्थायी रूप से उन्नयन करते हुए, श्री संजय कोठारी, आईएसएस (हरियाणा : 78), अपर सचिव, पर्यटन को स्वस्थाने आधार पर दिनांक 17.04.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार में विशेष सचिव के तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

बी. एन. प्रसाद, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल 2012

सं. ईआरबी-I/2010/10/4--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.03.2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं :--

- (i) श्री प्रदीप भटनागर, अपर सदस्य (टीटी)
- (ii) श्री ए. डी. रामाचंद्रन, निदेशक
- (iii) श्री ए. के. शर्मा, उप सचिव
- (iv) श्री एस. के. दास, उप निदेशक
- (v) श्री रमेश चन्द्र, प्रधान निजी सचिव
- (vi) श्री ए. के. जैन, अनुभाग अधिकारी

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 9 मई 2012

सं. ई(जीपी) 2008/3/2--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलवे के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के निम्नलिखित 2 ग्रुप-बी अधिकारियों को उल्लिखित रेलवे पर दिनांक 19.07.2011 से भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग सेवा (आई.आर.एस.ई.) के ग्रुप-ए/कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2009-10 के लिए पैनल

उत्तर पश्चिम रेलवे

श्री डी. के. चौधरी

दक्षिण रेलवे/आई.सी.एफ./आर.डब्ल्यू.एफ.

श्री एस. शिवानन्दम (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 अप्रैल 2012

सं. ए-19012/6/1999-स्था.--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के निम्नलिखित अधिकारियों को वर्ष 2010 की चयन सूची में सम्मिलित होने पर पोत परिवहन मंत्रालय में दिनांक 20.03.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिवों (पीपीएस) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सर्वश्री/श्री/श्रीमती

(i) स्वर्णाबल संबासिवन

(ii) रतन लाल

(iii) लक्ष्मी नारायण

(iv) संतोष शर्मा

धीरेन्द्र कुमार पूर्वे, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 मई 2012

सं. ए-12033/1/2010-ई-1--नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के सचिवालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.04.2012 के आदेश सं. 1/2/2011-ई. ओ. (एसएम-1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्री रोहित कुमार सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (राजस्थान : 1989) को 37,400--67,000/- रु. के पे बैंड-4 + 10,000/- रु. के ग्रेड वेतनमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में दिनांक 19.04.2012 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अनिवार्य आधार पर अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. आर. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 10 मई 2012

सं. ए-12022/1/2008-ई-1--नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के सचिवालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.04.2012 के आदेश सं. 9/20/2012-ई. ओ. (एसएम-1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा पोत परिवहन मंत्रालय में वर्तमान में कार्यरत अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार श्री विजय छिब्र, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एमटी : 78) को उनके द्वारा ग्राहित अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार पद को अस्थायी रूप से स्वस्थानिक रूप से अस्थायी आधार पर प्रोन्नत करने पर 17.04.2012 (पूर्वाह्न) से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. आर. शर्मा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 मार्च 2012

सं. 03/2012-मि.सं.ए-32013/09/2011-प्रशा. एक--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा के सहायक निदेशक ग्रेड एक/सहायक कार्यकारी अभियन्ता के ग्रेड में अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	पद ग्रहण करने की तिथि
1.	नीरज वर्मा	30.03.2012
2.	सुमीत कुमार	30.03.2012

2. यह अधिकारी पद ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

मधुकर सूद, अवर सचिव

दिनांक 9 मार्च 2012

सं. 10/2012-मि.सं.ए-38012/1/2012-प्रशा. एक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री आर. के. गर्ग जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा में निदेशक के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 30 अप्रैल, 2012 से निवृत्त हो गए हैं।

मधुकर सूद, अवर सचिव

सं. 11/2012-मि.सं.ए-32013/2/2007-प्रशा. एक--राष्ट्रपति, श्री पंकज कुमार गुप्ता को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा के सहायक निदेशक ग्रेड एक/सहायक कार्यकारी अभियन्ता के ग्रेड में 07 जुलाई 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

मधुकर सूद, अवर सचिव

सं. 12/2012-मि.सं.ए-32013/3/2011-प्रशा. एक--राष्ट्रपति, श्री एन. के. गोपालाकृष्णन को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा के सहायक निदेशक ग्रेड एक/सहायक कार्यकारी अभियन्ता के ग्रेड में 28 दिसम्बर 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

मधुकर सूद, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2012

सं. ए-22011/2/2012-प्रशा-I--राष्ट्रपति, श्रीमती वीना कुमारी मीणा, आई.ए.एस. (यूपी : 93), को शहरी विकास मंत्रालय में 37,400--67,000/- रु. के पे बैंड + 8,700/- रु. ग्रेड वेतन में दिनांक 19.03.2012 (अपराह्न) से 5 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 2012

सं. ए-31013/1/2012-न.ग्रा.नि.स./प्र.-III/यू.डी.-II--राष्ट्रपति, नगर एवं ग्राम नियोजक संगठन में श्री सुदीप राय, सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक को सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक के पद पर दिनांक 01.01.2012 से मूलरूप से नियुक्त करते हैं।

के. जी. मोहन्ता, अवर सचिव

सं. ए-31013/1/2009-न.ग्रा.नि.स./प्र.-III/यू.डी.-II--राष्ट्रपति, नगर एवं ग्राम नियोजक संगठन में मो. मोनिस खान, नगर एवं ग्राम नियोजक

को नगर एवं ग्राम नियोजक के पद पर दिनांक 15.02.2012 से मूलरूप से नियुक्त करते हैं।

के. जी. मोहन्ता, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 2012

सं. ए-32012/1/2011-आईएसएच-II--राष्ट्रपति, डॉ. एम. राजाराम को दिनांक 27.04.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक 37,400--67,000/- रु. के वेतनमान (वेतन ग्रेड 10,000/- रु.) में कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान (डीजीफासली) महानिदेशालय, मुंबई में महानिदेशक के पद पर नियुक्त करती हैं।

एस. के. सिंह, अवर सचिव

सं. ए-12025/03/2010-आईएसएच-II--राष्ट्रपति, श्री तनोज चंदन को दिनांक 23.04.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक 15,600--39,100/- रु. के वेतनमान सहित 6,600/- रु. के वेतन ग्रेड में कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय, मुंबई में उप निदेशक (सुरक्षा) के पद पर नियुक्त करती हैं।

एस. के. सिंह, अवर सचिव

सं. ए-32012/7/2011-आईएसएच-II--राष्ट्रपति, डॉ. अवनीश सिंह को दिनांक 30.04.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक 37,400--67,000/- रु. के वेतनमान सहित 8,700/- रु. के वेतन ग्रेड में कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान (डीजीफासली) महानिदेशालय, मुंबई में उप महानिदेशक के पद पर नियुक्त करती हैं।

एस. के. सिंह, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 30th April 2012

No. RS.3/1(1)/2012/42-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Durupati Jetwani, Executive Officer in the Rajya Sabha Secretariat to the grade of Assistant Director in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- plus usual allowances as admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 23rd April, 2012 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

The 1st May 2012

No. RS.3/1(3)/2012/43-Perl.—Shri Mukul Pande, who was earlier appointed to officiate as Joint Secretary in the Rajya Sabha Secretariat on ad hoc basis vide Notification No. RS.3/1(3)/2012/12-Perl. dated 5th March 2012, has now been appointed on regular basis in that grade with effect from the forenoon of the 1st May 2012 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

No. RS.3/1(1)/2012/44-Perl.—Shri Anil Kumar Gandhi, who was earlier appointed to officiate as Director in the Rajya Sabha Secretariat on ad hoc basis vide Notification No. RS.3/1(1)/2012/15-Perl. dated 12th March 2012, has now been appointed on regular basis in that grade with effect from the forenoon of the 1st May 2012 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

No. RS.3/1(1)/2012/45-Perl.—Smt. Subha Chandrashekar, who was earlier appointed to officiate in the grade of Legislative/Committee/Protocol/Executive Officer in the Rajya Sabha Secretariat on in situ basis vide Notification No. RS.3/1/1/2009/105-Perl. dated 30th December 2009, stands adjusted against a regular vacancy in the said grade with effect from the forenoon of the 1st May 2012.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

The 9th May 2012

No. RS.6/4/2012/49-Perl.—The services of Smt. Shikha Mukherjee, who had been appointed as Senior Private Secretary on co-terminus basis in the personal staff of former Chairman, Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice (Dr. Abhishek Manu Singhvi), stand terminated w.e.f. the afternoon of 9th May, 2012.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 18th April 2012

No. A.12025/1/2009-Adm.I—In continuation of Planning Commission notification of even number 3rd November, 2010, the President is pleased to extend the term of ad hoc appointment of Shri R. C. Meena as Deputy Adviser (Social Planning) for a further period of six months beyond 25.10.2011 in PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- or until further orders, whichever is earlier.

2. The other terms and conditions will remain the same as was mentioned in earlier Planning Commission Notification of even number dated 3rd November, 2010.

G. RAJEEV, Under Secy.

The 2nd May 2012

No. F.A-12025/11/2011-Adm.I—In pursuance of Department of Personnel & Training Communication No. 7/1/2012-E.O.(SM.II), dated 24th April, 2012 the President is pleased to appoint Shri I. A. Khan as Adviser (Energy) in Planning Commission on promotion basis in PB-4, Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay 10,000/- with effect from forenoon of 27th April, 2012 and until further orders.

G. RAJEEV, Under Secy.

New Delhi-110001, the 27th April 2012

CORRIGENDUM

No. A-32014/1/2010-Admn.III—In partial modification of Planning Commission's Notification of even number dated 26th April, 2012 regarding appointment in the Grade of Principal Private Secretary of CSSS against the Select List Year 2010, the Category in respect of the officer mention at S. No. 12, namely Shri C. L. Kadam, may be read as 'SC' instead of 'Genl.'

2. The other contents in said Notification would be remain unchanged.

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 1st May 2012

No. 181/3/2011—In pursuance of the recommendations of the review Departmental Promotion Committee (DPC) meetings, convened on 13.12.2011, 27.12.2011 and 19.04.2012, to review the recommendations of the earlier DPC meetings held on 01.08.2006, 11.07.2007, 10.12.2008, 12.11.2009, considering promotions in the grade of Section Officer and in supersession of the Commission's earlier notifications No. 181/3/2006(Gr.B), dated 10.08.2006, 14.11.2006, 06.10.2006, 06.12.2006 no. 181/3/2007(Gr.B), dated 23.08.2007, 14.01.2008, no. 181/3/2008(Gr.B), dated 10.02.2009 and no. 181/3/2009 (Gr.B), dated 19.11.2009, the Competent Authority hereby appoints the following assistants as Section Officer in the

Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- with corresponding Grade Pay of Rs. 4,800/-, on regular basis, w.e.f. the date & vacancy mentioned against their names and until further orders :—

Name	Date of promotion	Vacancy	Remarks
1	2	3	4
Gurmeet Kaur	01.08.2006	Against UR vacancy	Since Retired
Malay Mallick	01.08.2006	Against UR vacancy	—
Avinash Kumar	01.08.2006	Against UR vacancy	—
Arvind Anand (SC)	01.08.2006	Against UR vacancy	—
Rahul Sharma	01.01.2007	Against UR vacancy	—
Ajoy Kumar	01.01.2007	Against UR vacancy	—
Md. Umar	01.01.2007	Against UR vacancy	—
Kumar Rajeev	17.05.2010	Against UR vacancy	—
T. C. Kom (ST)	01.01.2007	Against UR vacancy	—
Pushpa Niroj Lakra (ST)	01.01.2007	Against UR vacancy	—
N. T. Bhutia (ST)	01.01.2007	Against UR vacancy	—
B. C. Patra	01.01.2007	Against UR vacancy	—
A. K. Bhatnagar	11.07.2007	Against UR vacancy	—
A. K. Pathak	11.07.2007	Against UR vacancy	—
T. K. Datta	11.07.2007	Against UR vacancy	Since Retired
S. K. Das	01.01.2008	Against UR vacancy	—
Jaydeb Lahiri	01.01.2008	Against UR vacancy	—
Anoop Kumar (SC)	01.01.2008	Against SC vacancy	—
Rakesh Kumar (SC)	01.01.2008	Against SC vacancy	—
H. J. K. Ghai	02.02.2009	Against UR vacancy	—
Gokul Chand (SC)	01.01.2010	Against UR vacancy	—
Lekh Raj	01.01.2010	Against UR vacancy	—
I. C. Goel	01.01.2010	Against UR vacancy	—
Krishna Kumari (SC)	01.01.2010	Against SC vacancy	—

1	2	3	4
R. P. Mehandiya (SC)	19.03.2010	Against UR vacancy	—
M. M. Raghwan (SC)	19.03.2010	Against SC vacancy	—

STANDHOPE YUHLUNG, Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 1st May 2012

No. A-12023/1/2003-Admn.I(LD)—The Competent Authority has approved the appointment of Smt. Renu Sinha, Superintendent (Legal) to the post of Assistant Legislative Counsel (Grade IV of Indian Legal Service) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- on ad hoc basis for a period of three months with effect from 30th March, 2012 or until further order, whichever is earlier.

2. This ad hoc appointment of Smt. Renu Sinha will not bestow on her any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Assistant Legislative Counsel (Grade IV of ILS) nor the ad hoc services rendered by her will count for the purpose of seniority in the grade or for her promotion to the next higher grade.

M. R. BEERH, Dir. (Admn.)

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 7th May 2012

No. A-32013/01/2011-Admn.IV (LA)—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/3/2011-CS-II(A) dated 20.03.2012, the President is pleased to appoint following officers, working as Principal Private Secretary on ad hoc basis in CSSS cadre of Department of Legal Affairs, as Principal Private Secretary in the same Department on regular basis on their inclusion in Select List Year 2010 of the grade of Principal Private Secretary of CSSS with effect from dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Present place of posting	Date of joining
1	2	3	4
	S/Shri/Ms.		
1.	C. S. Mehta	Legal Affairs	20.03.2012
2.	Surender Tipra	Legal Affairs, Law Commission	20.03.2012
3.	T. C. Scaria	Legal Affairs, Branch Sectt., Mumbai	20.03.2012
4.	A. S. Kohli	Legal Affairs	20.03.2012
5.	P. C. Joshi	Legal Affairs	20.03.2012

1	2	3	4
	S/Shri/Ms.		
6.	V. K. Airy	Leg. Deptt.	20.03.2012
7.	Sivakami Prakash	Legal Affairs, Branch Sectt., Mumbai	20.03.2012
8.	Dayawati Sharma	Leg. Deptt.	09.04.2012
9.	S. K. Padhi	Legal Affairs	20.03.2012
10.	Bhupender	Leg. Deptt.	20.03.2012
11.	Pushpa Rani Rao	Legal Affairs	20.03.2012
12.	Teresa Kujur	Legal Affairs	20.03.2012
13.	Parveen Chander Gurah	Leg. Deptt.	20.03.2012
14.	Nirmal Dobhal	Legal Affairs	20.03.2012

ASHA SOTA, Under Secy.

DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110011, the 1st May 2012

No. K-13024/01/2012-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Periya Veedu Quadir Meeran Barkath Ali, Additional Judge of the Kerala High Court, to be a Judge of the Kerala High Court, with effect from the date he assumes charge of his office.

SNEHLATA SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 4th May 2012

No. A-32014/5/2012-Ad.I(A)—The President is pleased to appoint the following Private Secretaries of CSSS cadre, who are presently officiating as Principal Private Secretary on ad hoc basis in the Ministry of Home Affairs cadre, as Principal Private Secretary on regular basis in the Ministry of Home Affairs cadre with effect from the forenoon of 20th March 2012, consequent upon inclusion of their names in the Select List of Principal Private Secretary for the Select List Year 2010 in terms of the DoPT's OM No. 3/3/2011-CS.II(A) dated 20.03.2012 :—

Sl. No.	Name	Sl. No. as per DoPT's above referred O.M.	Sub-Cadre where the officer is posted
1	2	3	4
	S/Shri/Smt.		
1.	Kusum Sharma	9	MHA (P)
2.	Rattan Singh Negi	12	PMO

1	2	3	4
	S/Shri/Ms.		
3.	K. Bhardwaj	19	MHA (P)
4.	M. M. K. Malhotra	26	MHA (P)
5.	Ravinder Kumar	33	NSCS
6.	Joana Barretto	62	DoNER
7.	Pawan Rekha Sharma	71	NSCS
8.	Kavita Handa	117	DoNER
9.	Satnam Singh	130	RGI
10.	Anil Dhawan	215	MHA (P)
11.	K. N. Pant	217	NCRB
12.	M. V. N. S. Syamlal	222	M/o OIA
13.	B. Venkatasubramanian	261	MHA (P)
14.	Manjeet Singh	263	MHA (P)
15.	Uma Ravi Ramaswamy	273	NCRB
16.	V. K. Manuja	286	MHA (P)
17.	V. S. Mathur	324	MHA (P)
18.	Usha	331	RGI
19.	N. S. Kashyap	346	PMO
20.	Harish Chandra	357	RGI
21.	Rajender Prasad	374	PMO
22.	K. Srinivasan	377	MHA (P)
23.	P. M. Muralidharen	401	MHA (P)
24.	Rajan Gera	404	MHA (P)
25.	M. Raghu	410	MHA (P)
26.	Arun Kumar Sharma	429	MHA (P)
27.	P. S. G. Nair	462	MHA (P)
28.	Triptjeet Mahajan	477	NSCS
29.	Kamlesh Pal	571	Computer Centre
30.	M. L. Verma	578	NCRB
31.	Tara Chand	593	MHA (P)
32.	Indresh Kumar	594	RGI
33.	S. Guru Moorthy	619	MHA (P)
34.	A. K. Gaur	620	MHA (P)
35.	M. Jagannatha Rao	624	PMO
36.	Vibha Mehta	636	DoNER
37.	K. P. Ramaverma	641	NSCS
38.	N. Gopalakrishnan	644	PMO

J. B. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 10th May 2012

No. I-14011/8/2011-IPS.I(I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 13.04.2012, approved the Select List of the year 2010, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 27.12.2011, containing the names of the following State Police Service Officers of Nagaland, towards filling up 4 substantive vacancies during the year 2012 in the IPS of Nagaland Cadre :—

SELECT LIST 2010

Sl.No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Wetsope Krome	28.02.1959
2.	Khocherao Elias Lotha	15.07.1956
3.	S. Tokiumong Yimchunger	12.12.1962
4.	Imlisunep	23.03.1964

BALDEV RAJ, Under Secy.

No. I-14011/8/2011-IPS.I(II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Nagaland Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Nagaland Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

SELECT LIST 2010

Sl.No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Wetsope Krome	28.02.1959
2.	Khocherao Elias Lotha	15.07.1956
3.	S. Tokiumong Yimchunger	12.12.1962
4.	Imlisunep	23.03.1964

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

BALDEV RAJ, Under Secy.

New Delhi-110001, the 14th May 2012

No. I-18011/07/2012/IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police

Service borne on the cadre of Bihar with effect from dates mentioned against their names :—

Sl.No.	Name of the IPS Probationers	Date of Confirmation
	S/Shri	
1.	Upendra Kumar Sharma, IPS (BH:2008)	01.09.2010
2.	Manoj Kumar, IPS (BH:2008)	01.09.2010
3.	Vikash Burman, IPS (BH:2008)	01.09.2010
4.	Smt. Nitasha Guria, IPS (BH:2008)	01.09.2010

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPTT. OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 9th May 2012

No. 13017/42/2011-AIS-I—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Manipur, Tripura and the Ministry of Home Affairs, the Central Govt. hereby accords approval for inter cadre deputation of Ms. Saumya Gupta, IAS (MT:04) from Manipur-Tripura cadre to AGMUT cadre (Delhi segment) for a period of five years with effect from the date of her reporting for duty.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 2nd May 2012

No. DIII/460/CF-30/2011—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Uddhav Abhay Kumar Kanoria as Honorary Consul of the Republic of El Salvador in Bengaluru with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Uddhav Abhay Kumar Kanoria comprises Bengaluru.

DEEPAK MIGLANI, Dy. Chief of Protocol (F)

No. DIII/460/CF-78/2011—The President of India is pleased to recognize the appointment of Ms. Irina Kimovna BASHKIROVA as Consul General of the Russian Federation in Kolkata with immediate effect.

The consular jurisdiction of Ms. Irina Kimovna BASHKIROVA comprises the States of West Bengal, Bihar, Jharkhand and Odisha with the seat in Kolkata.

DEEPAK MIGLANI, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 11th April 2012

No. 35 (F. No. A.19014/6/2009-Ad.I)—In continuation of this Department's Notification Nos. 114/2009 dated 30th December, 2009 and 22/2011 dated 23rd March, 2011, the President of India is pleased to extend the deputation tenure of Shri Raju P. Amlani, an officer of the Directorate of Enforcement, New Delhi as Junior Analyst (Technical Coordination) in the Department of Revenue for further one year period i.e. w.e.f. 04.04.2012 to 03.04.2013 or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 13th April 2012

No. 36 (F. No. A.19013/12/2012-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Shri Syamal Datta, IRS (IT:02607) as Senior Technical Officer in the Central Economic Intelligence Bureau of this Department for a period of three years w.e.f. 19.03.2012 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 27th April 2012

No. 38 (F. No. A.19011/6/2012-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Shri Madan Lal Meena, an officer of the Indian Administrative Service (WB:83), as Joint Secretary in the Department of Revenue, Ministry of Finance in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from 27th April, 2012 (FN) for the period upto 15.06.2015 or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 30th April 2012

No. 39 (F. No. A.19011/7/2012-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Shri S. Dutt Majumder, Chairman, CBEC (Retd.), as Indirect Tax Ombudsman at Delhi in the HAG+Pay Scale of Rs. 75,500—80,000/- for a period of two years w.e.f. 27.04.2012 (FN) or till the age of 63 years or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 1st May 2012

No. 40 (F. No. A.38011/1/2012-Ad.I)—Smt. Manjari Kacker, an officer of the Indian Revenue Service (74047), posted as Member, CBDT in the Department of Revenue retired from Government Service on 30.04.2012 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 2nd May 2012

No. 41 (F. No. A.38014/2/2012-Ad.I)—Shri P. K. Sharma, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Section Officer in the Department of Revenue, retired from Government Service on 30.04.2012 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 42 (F. No. A.38011/2/2012-Ad.I)—Shri M. C. Thakur, an officer of the Indian Revenue Service (C&CE:75), posted as Member, CBEC in the Department of Revenue retired from Government Service on 30.04.2012 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 43 (F. No. A-19012/8/2007-Ad.I)—In continuation of this Department's Notification No. 52 dated 4th May, 2007, the President is pleased to extend the deputation tenure of Shri Sanjiv Srivastava, IRS (C&CE:91), Director in the Department of Revenue upto 31.07.2012.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 4th May 2012

No. 44 (F. No. A-19011/8/2012-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Shri Shashi Shekhar, an officer of the Indian Administrative Service (TN:81), as Additional Secretary to the Government of India in the Department of Revenue, Ministry of Finance in the HAG Scale of Pay of Rs. 67,000—79,000/- with effect from 03.05.2012 (FN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 9th May 2012

No. 4/5/2009-Ad.ED(Pt.)—The President of India is pleased to appoint the following officers as Deputy Directors of Enforcement (erstwhile Assistant Director, Grade-I) Directorate of Enforcement, under the Department of Revenue on deputation basis in the Pay Scale of Rs. 10,000—15,200/- (pre revised) Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- Grade Pay of Rs. 6,600/- (revised) for a period of 4 (four) years with effect from the dates mentioned against their name or until further orders, whichever is earlier :—

Sl.No.	Name	Date of Joining
1.	Shri Nilkanth Shelke	08.08.2011 (FN)
2.	Shri Gurnam Singh	02.01.2012 (FN)
3.	Shri K. C. Selvamani	03.01.2012 (FN)

R. N. SINGH, Under Secy.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 4th May 2012

No. 7 of 2012 (F. No. A-32012/01/2005-Ad.VI)—Shri P. P. Aspatwar (00938), Assistant Commissioner of Income Tax, Bangalore is hereby promoted to officiate as Deputy Commissioner of Income Tax (Senior Time Scale) in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- in PB-3 with effect from 01.01.2006.

ANAND UPADHYAY, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 9th May 2012

No. A-12011/18/2005-Admn.II—In pursuance of Department of Expenditure (CAS) O.M. No. A.32014/1/2006-CAS (Vol.I) dated 04.04.2012, the President is pleased to appoint Shri Jaydip Kumar Choudhury, Section Officer (Ad hoc), as regular Section Officer (S. L. Year 2006) in the Pay Scale of Rs. 9,300—34,800/- + 4,800/- (Grade Pay) in PB-2 in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs on the basis of the result of the Combined Limited Departmental Competitive Exam, 2006, 2007 & 2008 with effect from the afternoon of 30.03.2012.

2. The appointment of above mentioned officers to the grade of Section Officers of CSS shall be

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 24th April 2012

No. 9/1/2011-DRT (Pt)—The Central Government is pleased to appoint the following officers to the post of Assistant Registrar/Recovery Officer in various Debts Recovery Tribunals (DRTs) on deputation basis, in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- for a period mentioned against each or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	Post	Posted in (DRT)	Period of deputation	
				From	To
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Shri/Smt.				
1.	Kopuri B. Kumar	Assistant Registrar	Visakhapatnam	22.02.2012 (FN)	21.02.2015
2.	Utpal Samajpati	Assistant Registrar	Kolkata-II	23.02.2012 (FN)	22.02.2015
3.	Gopal Krishna Panda	Assistant Registrar	Mumbai-II	01.03.2012 (FN)	28.02.2015
4.	S. Srinivasan	Recovery Officer	Madurai	12.03.2012 (FN)	11.03.2015
5.	S. R. Paranjpe	Recovery Officer	Nagpur	22.02.2012 (FN)	21.02.2015
6.	Nand Kumar	Recovery Officer	Jaipur	21.02.2012 (FN)	20.02.2015
7.	B. N. Jha	Recovery Officer	Mumbai-I	15.02.2012 (FN)	14.02.2015
8.	D. Veerananarayana	Recovery Officer	Visakhapatnam	29.02.2012 (FN)	28.02.2015

RAJIV SHARMA, Under Secy.

subject to the outcome of the following Court Cases :—

- (i) OA No. 1083/2007, MA No. 1171/2007 & MA of 2011 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UoI in CAT, New Delhi.
- (ii) OA No. 2136/2010 filed by Shri A. K. Nandy & Ors. Vs. UoI in CAT, New Delhi.
- (iii) OA No. 2469/2010 filed by Shri Vikas Tripathi & Ors. Vs. UoI in CAT, New Delhi.
- (iv) OA No. 1253/2009 filed by Shri A. Prakash & Ors. Vs. UoI in CAT, New Delhi.
- (v) OA No. 2584/2011 and MA No. 1987/2011 filed by Shri Prodip Kumar Mondal Vs. UoI & Ors. in CAT, New Delhi.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 14th May 2012

No. A.22011/1/2012-Ad.IA—The President is pleased to appoint Shri Anupam Mishra (IES:95), NFSG/JAG level Officer of Indian Economic Service in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs as Director w.e.f. 17.04.2012 (AN).

NEELAM VOHRA, Under Secy.

No. 9/1/2011-DRT (Pt)—The Central Government is pleased to appoint the following officers to the post of Registrar in various Debts Recovery Tribunals (DRTs) on deputation basis, in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- for a period mentioned against each or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	Post	Posted in (DRT)	Period of deputation	
				From	To
	Shri/Smt.				
1.	K. Sreemannarayana	Registrar	Visakhapatnam	03.02.2010 (AN)	02.02.2015
2.	Premraj Kuar	Registrar	Delhi-III	23.02.2012 (AN)	22.02.2015

RAJIV SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 11th May 2012

No. A-19011/323/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Ateesh Singh, Indian Railway Traffic Service (1994) as Director in the Department of Financial Services, Ministry of Finance with effect from forenoon of the 10th May, 2012 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

MRITUNJAY SINGH, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 4th May 2012

No. A-12026/6/2010-Ad.I—The President is pleased to appoint the following PPS (Ad hoc) of Central Secretariat Stenographers' Service (CSSS) to the post of Principal Private Secretary (PPS) on regular basis in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay Rs. 6,600/- with effect from 20th March, 2012 in pursuance to DoP&T's O.M. No. 3/3/2011-CS-II(A) dated 20th March, 2012 :—

Sl.No.	Name
1.	Shri D. C. Pandey
2.	Smt. Rajee Rajagopal
3.	Shri S. K. Kathpalia
4.	Shri S. Dharmarajan
5.	Smt. Kruttika Chhabra
6.	Shri Kedar Nath Soni
7.	Smt. Om Lata Rawat

BIPLAB KUMAR ROY, Under Secy.

DEPARTMENT OF DISINVESTMENT

New Delhi-110003, the 9th May 2012

No. 9/2/2012-Admn.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List Year, 2010 and thus promotion to the

grade of Principal Private Secretary, Central Secretariat Stenographers' Service in terms of Department of Expenditure (Cadre Administration Section)'s Office Memorandum No. A-12026/9/2010-CAS dated 13th April, 2012 read with Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/3/2011-CS.II(A) dated 20.3.2012, the President is pleased to appoint Shri Virender (S.No. 97—SL Year 1993) as Principal Private Secretary on regular basis in the Department of Disinvestment with effect from the forenoon of 10th April, 2012 in the Sixth Central Pay Commission's revised pay scale in the Pay Band/Pay Structure of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- (PB-3).

D. CHATTOPADHYAY, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE (SUPPLY DIVISION))

New Delhi, the 2nd May 2012

No. A-32014/1/2012-Cadre—The President is pleased to appoint Smt. Pushpa Chanana, Private Secretary of CSSS to the post of Private Secretary's Grade (Designated as PPS) of CSSS in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) in Supply Division for the Select List Year 2010 against the Seniority Quota w.e.f. 23.04.2012 (FN).

2. Smt. Pushpa Chanana, PPS of CSSS is posted in DGS&D.

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

The 3rd May 2012

No. A-32014/1/2012-Cadre—The President is pleased to appoint Sh. Girish Chandra Upadhyay, Private Secretary of CSSS to the post of Private Secretary's Grade (Designated as PPS) of CSSS in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) in Supply Division for the Select List Year 2010 against the Seniority Quota w.e.f. 01.05.2012 (FN).

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

The 10th May 2012

No. A-32014/1/2012-Cadre—The President is pleased to appoint Sh. O. P. Thapliyal, Private Secretary of CSSS to the post of Private Secretary's Grade (Designated as PPS) of CSSS in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) in Supply Division for the Select List Year 2010 against the Seniority Quota w.e.f. 27.04.2012 (FN).

2. Sh. O. P. Thapliyal, PPS of CSSS is posted in DGS&D.

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

No. A-32014/1/2012-Cadre—The President is pleased to appoint Sh. Yogeshwar Sarna, Private Secretary of CSSS to the post of Private Secretary's Grade (Designated as PPS) of CSSS in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) in Supply Division for the Select List Year 2010 against the Seniority Quota w.e.f. 27.04.2012 (FN).

2. Sh. Yogeshwar Sarna, PPS of CSSS is posted in DGS&D.

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

New Delhi-110107, the 24th April 2012

No. A-22012/1/2012-E.I—In pursuance of the orders of the Department of Personnel & Training vide their OM No. 20/31/2010-CS-II(A)(Pt) dated 13.4.2012, the President is pleased to extend further the term of ad hoc appointments of the following regular Stenographers Grade 'A&B' (Merged) (Private Secretary) of the Central Secretariat Stenographers Service cadre as Principal Private Secretary in the cadre of the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry in the Scale of Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- for the period upto 30.9.2012, or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	Posting	Sl. No. in DoPT list
1.	Shri D. K. Sharma	DIPP	10
2.	Ms. Machiraju Sarada	DIPP	38

2. The promotion of the officers to the grade of Principal Private Secretary is purely on ad hoc basis and shall not confer any right on the officers to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of Principal Private Secretary.

L. K. SHARMA, Under Secy.

The 4th May 2012

No. A-12023/2/2012-E.I—The President is pleased to appoint Dr. Satish Chandra, a regular Assistant Director of

WS-1—72-GI-2012

Official Language Service in the office of Directorate General of Supplies & Disposals, as Deputy Director (Official Language) in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry on ad hoc basis in the pay structure PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- for a period from 1.5.2012 to 8.2.2013 or till a regular Deputy Director (Official Language) becomes available for posting or until further orders whichever is the earliest.

2. The above appointment has been ordered purely on ad hoc basis and will not confer any right on the officer to continue indefinitely or for seniority in the grade or for promotion to the higher grade etc.

L. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi-110001, the 25th April 2012

No. A-23011/08/2012-HR-II—The President is pleased to appoint (i) Ms. Susheel Kumari, (ii) Shri Shashi Ballabh Naithani, and (iii) Shri Anoop Singh Rawat as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS for the Select List Year 2010 on regular basis in the Pay Band (PB-3), Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 20.03.2012 (FN), in pursuance of Department of Personnel and Training (DOPT)'s O.M. No. 3/3/2011-CS.II(A), dated 20.03.2012.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

The 26th April 2012

CORRIGENDUM

No. A-32011/09/2011-HR-II—In partial modification of the notification of even number dated 18.04.2012, the date of ad hoc appointment of Shri Shyam Sunder Verma as Under Secretary may be read as w.e.f. the forenoon of 15.12.2011 upto 30.06.2012 instead of w.e.f. the forenoon of 15.12.2012 to 30.06.2012.

2. All other contents remain the same.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 11th April 2012

No. A-19011/2/2012-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Jagdish Prasad Meena, IAS (AM:83), as Joint Secretary in the Ministry of Food Processing Industries, on lateral shift basis, w.e.f. from the date of assumption of charge of the post, for a period upto 02.08.2016 or until further orders, whichever event takes place earlier.

2. Shri Jagdish Prasad Meena, IAS (AM:83), has assumed the charge of the post of Joint Secretary in the Ministry of Food Processing Industries w.e.f. 02.04.2012 (FN).

SANJAI BAJPAI, Under Secy.

The 26th April 2012

No. A-19011/6/2006-Admn.—In pursuance of Government of Bihar's Notification No. 1/P-1020/2011-GAD-3499 dated 05.03.2012 conveying their approval for accepting the notice dated 02.02.2012 of Shri Ajit Kumar, IAS (BH:80), Joint Secretary, for his voluntary retirement from All India Service w.e.f. 01.05.2012 under Rule 16(2) of All India Services (DCRB) Rules 1958, the President is pleased to permit Shri Ajit Kumar, IAS (BH:80), Joint Secretary, Ministry of Food Processing Industries to retire from Government service on 01.05.2012 (F/N) in order to enable him to join his new assignment as Director, National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management, Kundli, Haryana.

SANJAI BAJPAI, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 1st May 2012

No. A. 12025/70/2009-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Soumyadiptha Ghosh to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- + 5,400/- (PB-3) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 12.07.2010 until further orders. Dr. Soumyadiptha Ghosh is posted as Medical Officer under Ministry of Labour. He will be on a probation period of two years from the date of appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 24th April 2012

No. A. 19012/02/2012-E.I—The President is pleased to appoint Sh. Vishwas Mehta, IAS (KL:86), as Joint Secretary in the Department of Health & Family Welfare w.e.f. the 24.04.2012 (FN), on lateral transfer basis, for the balance period of his Central Deputation tenure of five years i.e. upto 09.07.2014 or until further orders, whichever event takes place earlier.

ANIL KUMAR, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 28th March 2012

No. A. 12020/01/2011-Admn.-I—On the recommendations of Departmental Promotion Committee the Director General of Health Services is pleased to appoint Smt. Neeraj Anuj, Assistant (AD) to the post of Assistant Architect (Group 'B' Gazetted) in Directorate General of Health Services in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay Rs. 4,600/- on promotion basis with effect from the date she assumed the charge of the post i.e. 20.03.2012.

PREM PRAKASH, Dy. Dir. Admn. (Gen.)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 14th May 2012

No. 32013/9/2011-M-I—Consequent upon the recommendations of UPSC the President is pleased to appoint the following Marketing Officers (Group-III) to the post of Senior Marketing Officer (Group-III) on regular basis, in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- in Directorate of Marketing and Inspection with effect from the dates indicated against their names :—

Sl.No.	Name	Date of joining
1.	Shri N. R. B. Raju	30.03.2012
2.	Shri D. K. Gumasta	30.03.2012
3.	Shri Shiv Nandan	30.03.2012

SUKUMAR, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH & EDUCATION

New Delhi, the 7th May 2012

No. A-19014/57/2006-Estt.—The President is pleased to accept the voluntary retirement of Shri Rakesh Sharma, Under Secretary, CSS (CSL No. 4921), who is presently working as Deputy General Manager in PFRDA, from Central Secretariat Service w.e.f. 15.02.2012 under Rule 48 of the CCS (Pension) Rules, 1972.

VIJAY SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 10th April 2012

No. A-32013/1/2011-E-III—Consequent upon inclusion of their name in the Select List of Principal Private Secretary for the year 2010 against Seniority Quota vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/3/2011-CS-II(A) dated 20.03.2012, the President is pleased to appoint the following Officials presently officiating as Principal Private Secretaries of CSSS to the grade of Principal Private Secretary on regular basis in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) in the Cadre Unit of Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) with effect from 20.03.2012 (FN) :—

1. Sh. Sampuran Singh
2. Sh. R. P. Arora
3. Kum. Neela K. P.
4. Sh. Y. Subba Rao
5. Smt. Poonam Rani

6. Sh. P. Vijayan
7. Sh. G. Anil Kumar
8. Sh. C. Damodaran
9. Smt. Manju Sharma
10. Sh. Bajrang Lal
11. Sh. Devi Singh Pulast

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi-110001, the 19th April 2012

No. PF/M/55-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 3/3/2011-CS-II(A) dated 20th March, 2012, the President is pleased to appoint Smt. Malti Sharma, Principal Private Secretary (PPS) of CSSS on regular basis with effect from 20.3.2012 consequent upon the inclusion of her name in the Select List Year 2010 Sl. No. 408 in the Ministry of Youth Affairs & Sports in the CSSS cadre.

THANGLEMLIAN, Dy. Secy. (Admn.)

DEPARTMENT OF SPORTS

New Delhi, the 9th May 2012

No. F 1-27/2012-Instt. Desk.—In accordance with the provisions of Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 and in partial modification of the Ministry's Notification dated 2nd June, 2010, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India is pleased to appoint Shri C. Chinnappa, Director (Sports), Ministry of Youth Affairs and Sports as Estate Officer with immediate effect for the following Stadia of Sports Authority of India (SAI) :—

1. Jawahar Lal Nehru Stadium, Lodhi Road, New Delhi.
2. Indira Gandhi Stadium, I. P. Estate, New Delhi.
3. Major Dhyan Chand National Stadium, Near India Gate, New Delhi.
4. Dr. Shyama Prasad Mukherjee Swimming Pool Complex, Willington Crescent Road, New Delhi.
5. Dr. Karni Singh Shooting Ranges, Tughlakabad, New Delhi.

For other Buildings, Premises, Residential Accommodation and facilities under the jurisdiction of Sports Authority of India in Delhi, Secretary, (SAI) will continue to be the Estate Officer.

The above officers will discharge their duties as Estate Officer in addition to their present work.

RAKESH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 10th April 2012

No. 41/7/2010-Admn.II—The President is pleased to appoint the following Junior Wireless Officers working in Wireless Planning and Coordination Wing/Wireless Monitoring Organization of this Department, on promotion on ad hoc basis as Engineers in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Rs. 5,400/- as Grade Pay, for a period of One Year as mentioned against each :—

Sl.No.	Name	Period of ad hoc promotion	
	S/Shri		
1.	Makrand Pathak	07.03.2012 (AN)	06.03.2013
2.	B. Chattopadhyay	09.03.2012	08.03.2013
3.	S. Bhaskaran	09.03.2012	08.03.2013
4.	Umrao Meena	07.03.2012	06.03.2013

NIRMALA DEV, Under Secy.

The 24th April 2012

No. A.32014/2/2010-Admn.II—The President is pleased to permit the following Stenographers Grade 'C' of CSSS cadre of Department of Telecommunications to continue to officiate as Private Secretary {Stenographer Grade 'A&B' (merged)} on ad hoc basis in the Pay Band-2 of Scale of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- in the cadre of Department of Telecommunications for a further period as indicated below or till regular Private Secretary {Stenographer Grade 'A&B' (merged)} become available or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the Steno Grade 'C'	Period
1	2	3
1.	Smt. Rajshree Ramesh	01.04.2012 to 30.09.2012
2.	Smt. Pushpalatha	01.04.2012 to 31.05.2012
3.	Shri S. Shankaran	01.04.2012 to 30.09.2012
4.	Shri R. K. Chugh	01.04.2012 to 30.09.2012
5.	Smt. Anita Sharma	01.04.2012 to 30.09.2012
6.	Shri Jacob V. George	01.04.2012 to 30.09.2012
7.	Shri Dinesh Kumar	01.04.2012 to 30.09.2012
8.	Shri Narendra Kumar Sharma	01.04.2012 to 30.09.2012
9.	Shri Jagdish Chand	01.04.2012 to 30.09.2012
10.	Shri P. S. Ramakrishna	01.04.2012 to 30.09.2012

1	2	3
11.	Smt. Bindu Mol O.	01.04.2012 to 30.09.2012
12.	Smt. Varalakshmi Nagaraju	01.04.2012 to 30.09.2012
13.	Smt. Sunita	01.04.2012 to 30.09.2012
14.	Ms. Meena Vaid	01.04.2012 to 30.09.2012
15.	Ms. Savita Bakshi	01.04.2012 to 30.09.2012
16.	Smt. Vijay Kumari Sharma	01.04.2012 to 30.09.2012

2. The above appointments are purely on ad hoc basis and will not confer any right on the officers for absorption in the grade or to claim seniority in the Private Secretary Grade {Stenographer Grade 'A&B' (Merged)}.

NIRMALA DEV, Under Secy.

The 26th April 2012

No. 41-01/2010-Admn.II—The President is pleased to allow Shri Narendra Bharti, Assistant Wireless Advisor/Engineer-in-Charge (Wireless Monitoring Organisation) working in Wireless Planning & Coordination Wing/Wireless Monitoring Organisation, Department of Telecommunications, to continue to officiate as Deputy Wireless Advisor/Deputy Director (Wireless Monitoring Organisation) in the Grade Pay of Rs. 7,600/- in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) on ad hoc basis, for the period of 6 months w.e.f. 19.03.2012 to 18.09.2012, or till the regular incumbent assumes charge of the post, whichever is earlier.

2. It may be noted that the ad hoc appointment to the grade will not confer upon the above officer any right for claim in the matter of seniority and/or regular promotion in the grade. He shall stand reverted to his substantive grade on completion of the period of ad hoc appointment mentioned above unless otherwise ordered.

NIRMALA DEV, Under Secy.

DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110001, the 16th January 2012

No. 3-1/2011-Admn.—In pursuance of D.O.P.&T's O.M. No. 4/2/2011-CS.II(A) dated 8th November, 2011, the President is pleased to extend the period of ad hoc appointment of the following PAs of CSSS as PS of CSSS in the Department of Posts for a period upto 31.03.2012 or till regular Private Secretaries of CSSS become available, whichever is earlier :—

Sl.No.	Name
1	2
	S/Shri/Ms.
1.	Avtar Singh
2.	B. Muralidharan Pillai

1	2
3.	Vikas Khanna
4.	A. K. Goel
5.	Anuradha Jeevaraj
6.	G. Swaminathan
7.	Jayashree Lakshminarayanan
8.	Usha Bali
9.	Jayanta Saha
10.	Kanchan Bala Madan
11.	Karthiyani K. A.
12.	Sunil Kumar
13.	Rajender Prashad
14.	V. Bhanumathi
15.	Manju Verma
16.	P. K. Madan
17.	Mukta Agrawal
18.	Seema Gupta
19.	Raj Kalra

2. The above appointment is purely on ad hoc basis and shall not confer on the officers any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of PS of CSSS for regular appointment or to claim seniority in PS of Central Secretariat Stenographers Service. The ad hoc appointment can be terminated at any point of time without assigning any reason therefor.

AMIT PANKAJ, Asstt. Dir. Gen. (Admn.)

The 10th April 2012

No. 3-1/2011-Admn.—In pursuance of DoP&T's O.M. No. 5/8/2006-CS.II, dated 29th December, 2011, the President is pleased to extend the period of ad hoc appointment of the following PAs of CSSS as PS of CSSS in the Department of Posts for a period upto 31.03.2012 or till regular Private Secretaries of CSSS become available, whichever is earlier :—

Sl.No.	Name
1.	Ms. Gita Devi
2.	Shri C. P. Arora
3.	Ms. Chander Kanta

2. The above appointment is purely on ad hoc basis and shall not confer on the officers any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of PS of

CSSS for regular appointment or to claim seniority in PS of Central Secretariat Stenographers Service. The ad hoc appointment can be terminated at any point of time without assigning any reason therefor.

AMIT PANKAJ, Asstt. Dir. Gen. (Admn.)

MINISTRY OF TOURISM

New Delhi-110001, the 23rd April 2012

No. A-35018/03/2007-Admn.I—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 9/20/2012-EO (SM.I) dated 17.04.2012, the President is pleased to appoint Shri Sanjay Kothari, IAS (HY:78), Additional Secretary, Ministry of Tourism as Special Secretary in the Government of India, Ministry of Tourism w.e.f. 17.04.2012 (F/N) on in-situ basis by temporarily upgrading the post of Additional Secretary in the Ministry of Tourism until further orders.

B. N. PRASAD, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi-110001, the 20th April 2012

No. ERB-I/2010/10/4—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.03.2012 :—

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Shri Pradeep Bhatnagar | Additional Member (TT) |
| 2. Shri A. D. Ramachandran | Director |
| 3. Shri A. K. Sharma | Deputy Secretary |
| 4. Shri S. K. Das | Deputy Director |
| 5. Shri Ramesh Chander | Principal Private Secretary |
| 6. Shri A. K. Jain | Section Officer |

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

The 9th May 2012

No. E(GP)2008/3/2—The President is pleased to appoint the undermentioned 2 Group B officers of Civil Engineering Department of Indian Railways, to the Gr. 'A'/Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers (IRSE) with effect from 19.07.2011 on the Railways mentioned against each :—

PANEL FOR 2009-2010

North Western Railway

Sh. D. K. Chaudhary

Southern Railway/ICF/RWF

Sh. S. Sivanandam (SC) (Promoted against SC vacancy)

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi-110001, the 26th April 2012

No. A-19012/6/1999-Estt.—The President is pleased to appoint following officers as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) on their inclusion in the Select List Year 2010 on regular basis in Ministry of Shipping with effect from 20.03.2012 (F/N) till further orders :—

1. Smt. Swarnambal Sambasivan
2. Shri Rattan Lal
3. Shri Laxmi Narayan
4. Smt. Santosh Sharma

D. K. PURBEY, Under Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 30th April 2012

No. A-12033/1/2010-E-I—In pursuance of Secretariat of the Appointments Committee of Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training's Order No. 1/2/2011-EO(SM.I) dated 9.4.2012, the President is pleased to appoint Shri Rohit Kumar Singh, IAS (RJ:1989) as Joint Secretary in the Ministry of Road Transport & Highways in Pay Band-4, Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 10,000/- Grade Pay on mandatory basis for a period of 5 years w.e.f. 19.4.2012 (F.N.) or until further orders, whichever is earlier.

D. R. SHARMA, Under Secy.

No. A-12022/1/2008-E-I—In pursuance of Secretariat of the Appointments Committee of Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training's Order No. 9/20/2012-EO(SM.I) dated 17.4.2012, the President is pleased to appoint Shri Vijay Chhibber, IAS (MT:78), presently working as Additional Secretary & Financial Adviser, in the Ministry of Road Transport & Highways and Ministry of Shipping as Special Secretary & Financial Adviser in the Ministry of Road Transport & Highways w.e.f. 17.4.2012 (F.N.) on in-situ basis by temporarily upgrading the post of Additional Secretary & Financial Adviser held by him.

D. R. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 2nd May 2012

No. 03/2012 (F. No. A-32013/09/2011-Adm.I)—The President is pleased to appoint the following officers in the grade of Assistant Director Grade-I/Assistant Executive Engineer of the Central Power Engineering (Group A) Service in the Central Electricity Authority until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of taking over charge of the post of AD-I/AEE
1.	Ms. Neeraj Verma	30.03.2012
2.	Shri Sumeet Kumar	30.03.2012

2. The officers will be on probation for a period of two years from the date of assuming the charge.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

The 9th May 2012

No. 10/2012 (F. No. A-38012/1/2012-Adm.I)—Shri R. K. Garg, Director, Central Electricity Authority officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 30th April, 2012 on attaining the age of superannuation.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

No. 11/2012 (F. No. A-32013/02/2007-Adm.I)—The President is pleased to appoint Shri Pankaj Kumar Gupta in the grade of Deputy Director/Executive Engineer of the Central Power Engineering (Group A) Service in the Central Electricity Authority from 7th July, 2008 until further orders.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

No. 12/2012 (F. No. A-32013/3/2011-Adm.I)—The President is pleased to appoint Shri N. K. Gopalakrishnan in the grade of Deputy Director/Executive Engineer of the Central Power Engineering (Group A) Service in the Central Electricity Authority from 28th December, 2011 until further orders.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 30th March 2012

No. A-22011/2/2012-Admn.I—The President is pleased to appoint Smt. Veena Kumari Meena, IAS (UP:93) as Director in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- and Grade Pay of

Rs. 8,700/- in the Ministry of Urban Development with effect from 19.03.2012 (AN) for a period of 5 years or until further orders, whichever is earlier.

JITENDER KUMAR, Under Secy. (Admn.)

New Delhi, the 27th April 2012

No. A.31013/1/2012-TCPO/Admn.III/UD.II—The President is pleased to appoint Shri Sudeep Roy, Assistant Town and Country Planner in the Town and Country Planning Organisation substantively to the post of Assistant Town & Country Planner on 01.01.2012.

K. G. MOHANTA, Under Secy.

No. A.31013/1/2009-TCPO/Admn.III/UD.II—The President is pleased to appoint Mohd. Monis Khan, Town and Country Planner in the Town and Country Planning Organisation substantively to the post of Town & Country Planner on 15.02.2012.

K. G. MOHANTA, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 10th May 2012

No. A-32012/1/2011/ISH-II—The President is pleased to appoint Dr. M. Rajaram to the post of Director General, Directorate General Factory Advice Service & Labour Institutes (DGFASLI), Mumbai in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- (Grade Pay Rs. 10,000/-), with effect from 27.04.2012 (F/N) and until further orders.

S. K. SINGH, Under Secy.

No. A-12025/03/2010/ISH-II—The President is pleased to appoint Sh. Tanoj Chandan to the post of Deputy Director (Safety) in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 6,600/-, in the Directorate General Factory Advice Service & Labour Institutes, Mumbai, with effect from 23.04.2012 (F/N) and until further orders.

S. K. SINGH, Under Secy.

No. A-32012/7/2011/ISH-II—The President is pleased to appoint Dr. Avneesh Singh to the post of Deputy Director General, in the Directorate General Factory Advice Service & Labour Institutes (DGFASLI), Mumbai in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/-, Grade Pay Rs. 8,700/- with effect from 30.04.2012 (F/N) and until further orders.

S. K. SINGH, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI